

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016—श्रावण 14, शक 1938

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

फा. क्र. 17(ई)-2938-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के जिला मण्डला जनपद पंचायत, मवई के पंचायत आम निर्वाचन 2016 हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि मोहन बाथम, अवर सचिव.

जनपद पंचायत, मवई में पंचायत आम निर्वाचन 2016 के दौरान नियुक्त जोनल अधिकारी  
जिन्हें कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना हैं

जोन क्र.	जोनल अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डॉ. संतोष शुक्ला	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मण्डला 7898502333	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 01 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 5, 6, 7, 8, 9, एवं 10 के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	श्री पी. डी. सराटे	उप संचालक, कृषि, मण्डला 9826410736	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 02 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 19, 20, 23, 24, 25, 26 एवं 27 के लिये.
3	श्री राम हर्ष वर्मा	जिला परियोजना समन्वयक 9424328415	द्वितीय श्रेणी	जोन क्र. 03 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32 एवं 33 के लिए.
4	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	सहायक संचालक, उद्यान, मण्डला 9425176219	द्वितीय श्रेणी	जोन क्र. 04 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 01, 02, 03, 04, 17 एवं 18 के लिए.
5	श्री मोती लाल आलावा	अनुविभागीय अधिकारी, हलोन बिछिया 9685467925	द्वितीय श्रेणी	जोन क्र. 05 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 के लिए.
6	श्री के. पी. लखेरा	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डला 9424922624	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 06 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 34, 35, 36, 37, 40 एवं 41 के लिये.
7	श्री एस. एल. तिलगाम	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डला 9406749988	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 07 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 के लिये.
8	श्रीमति मंजूलता सिंह जिला	कार्यक्रम अधिकारी, मण्डला 9424818238	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 08 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 49, 50, 51, 52, 53, 54 एवं 55 के लिये.
9	श्री सुरेश टेकाम	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 2, मण्डला 8959525775	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 09 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 56, 57, 58, 59, 60, 81 एवं 82 के लिये.
10	श्री आर. धुर्वे	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1, मण्डला 9425466578	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 10 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 61, 62, 63, 64, 79 एवं 80 के लिये.
11	श्रीमति स्मृति खंडेलवाल	प्रभारी अधीक्षक, भू-अभिलेख 9479425472	तृतीय श्रेणी	जोन क्र. 11 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 65, 66, 67, 68, 76, 77 एवं 78 के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	श्री एम. आर. धुर्वे	खनिज अधिकारी, मण्डला 7693064814	द्वितीय श्रेणी	जोन क्र. 12 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 38, 39, 69, 70, 71, 72, 73, 71 एवं 75 के लिये.
13	श्री विजय तेकाम	परियोजना प्रशासक निवास 9424789560	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 13 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 85, 86, 87, 88, 91 एवं 92 के लिये.
14	श्रीमति आयषा परवीन कुरैषी	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मण्डला 9425165103	द्वितीय श्रेणी	जोन क्र. 14 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 83, 84, 89, 90, 93, 94 के लिये.
15	डॉ. एस. पी. त्रिपाठी	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, मण्डला 8871186598	प्रथम श्रेणी	जोन क्र. 15 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 95, 96, 97, 98, 102 एवं 103 के लिये.
16	श्री यू. बी. पटैल	जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डला	द्वितीय श्रेणी	जोन क्र. 16 के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्र. 99, 100, 101, 104, 105, 106 एवं 107 के लिये.

रिजर्व:—

1	श्री महेन्द्र कुमार पानीकर	अनुविभागीय अधिकारी, पी.डब्ल्यू.डी., बिछिया 9826192412	द्वितीय श्रेणी	—
2	श्री डी. एस. उद्दे	सहायक संचालक, आदिवासी विकास, मण्डला 9424360649	प्रथम श्रेणी	—
3	श्री ए. जे. सिंग	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिछिया 9424385795	द्वितीय श्रेणी	—